

सांगली की हल्दी को मिला जीआई टैग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय पेटेंट कार्यालय ने महाराष्ट्र स्थिति सांगली की हल्दी को ज्यॉग्राफिकल इंडेक्स (जीआई) रैंकिंग प्रदान की। सांगली में हल्दी की खेती करने वाले किसान लंबे समय से 'सांगली ची हलद' यानी सांगली की हल्दी को जीआई टैग देने की मांग कर रहे थे।

जीआई टैग का लाभ

इस उपलब्धि के चलते सांगली की हल्दी को 'सांगली' ब्रांड के नाम से पूरे भारत के साथ-साथ विदेश में भी बेचा जा सकेगा। कोई भी अन्य संस्थान, कंपनी अथवा व्यक्ति 'सांगली हलद' के नाम से इसकी बिक्री नहीं कर सकेगा। इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सांगली ब्रांड के नाम से पहचान प्राप्त होगी।

सांगली की हल्दी

- यह फसल यहाँ के किसानों के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
- माना जाता है कि सांगली के किसानों द्वारा लगभग 200 साल पहले हल्दी के उत्पादन तथा भंडारण का एक विशिष्ट तरीका खोजा गया था।
- इस तरीके के तहत किसान हल्दी को ज़मीन के नीचे काफ़ी गहराई में दबा देते थे ऐसा करने से ऑक्सीजन हल्दी तक नहीं पहुँच पाती थी तथा शीघ्र खराब भी नहीं होती थी।
- इस तकनीक के प्रयोग से न केवल हल्दी की पैदावार में वृद्धि हुई बल्कि इसकी गुणवत्ता तथा स्वाद में भी वृद्धि हुई जिसके कारण यह पूरे भारत में प्रसिद्धि हो गई।

सांगली

सांगली महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में से एक है। यह शहर पश्चिम-दक्षिण महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। यह शहर पूर्व में सांगली राज्य (1761-1947) की राजधानी था। इसके आस-पास का क्षेत्र कृषि उत्पादन के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ की मुख्य फसलें ज्वार, गेहूँ तथा दलहन हैं। अंगूर भी इस क्षेत्र में विशेष रूप से उगाई जाती है तथा इसका भी एक बड़ा बाजार है। गन्ना इस क्षेत्र की मुख्य सचिती फसल है जिसने कई चीनी मिलों के विकास में सहायता की है।

इस बारे में और अधिक जानकारी के लिये इन लिंक्स पर क्लिक करें:

- ⇒ [भारत के विकास में जीआई टैग की भूमिका](#)
- ⇒ [भौगोलिक संकेतों को बढ़ावा देने के लिये सोशल मीडिया अभियान](#)
- ⇒ [प्रीलिमिस फैक्ट्स : 4 जनवरी, 2018](#)
- ⇒ [प्रीलिमिस फैक्ट्स : 13 जनवरी, 2018](#)
- ⇒ [प्रीलिमिस फैक्ट्स : 06 मार्च, 2018](#)
- ⇒ [भारत के बौद्धिक सम्पदा अधिकार: चुनौतियाँ एवं समाधान](#)